



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 26—अप्रैल 1, 2011 (चैत्र 5, 1933)

No. 13]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 26—APRIL 1, 2011 (CHAITRA 5, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 25 फरवरी 2011

सं. ए. 22012/1/2011-पीएमई--केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप श्रीमती वी. विद्यावती, आई.ए.एस. (केएन : 91) ने दिनांक 25 फरवरी, 2011 (अपराह्न) से प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी. के. बाली, अवर सचिव

दिनांक 9 मार्च 2011

सं. ए. 22017/1/2011-पीएमई--राष्ट्रपति, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के सहायक श्री पी. आर. सुब्रमणियन को दिनांक 04 फरवरी, 2011 (पूर्वाह्न) से प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ में सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

2. श्री सुब्रमणियन की नियुक्ति प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के कार्यकाल तक और उनके विवेकाधीन होगी।

पी. के. बाली, अवर सचिव

सं. ए. 22017/1/2011-पीएमई--राष्ट्रपति, श्री ए. अम्बरामु, आई.ए.एस. (एजीएमयूटी : 1996) को दिनांक 04 फरवरी, 2011 (पूर्वाह्न) से प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

2. श्री ए. अम्बरामु की राज्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्ति दिनांक 02.08.2014 तक अथवा मंत्री के कार्यकाल तक अथवा मंत्री के निजी सचिव के रूप में उनके कार्य छोड़ने तक अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।

पी. के. बाली, अवर सचिव

सं. ए. 22017/1/2011-पीएमई--राष्ट्रपति, योजना आयोग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वैयक्तिक सहायक श्री ए. अरुण को दिनांक 04 फरवरी, 2011 (पूर्वाह्न) से प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ में प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में नियुक्त करती है।

2. श्री ए. अरुण की नियुक्ति प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के कार्यकाल तक और उनके विवेकाधीन होगी।

पी. के. बाली, अवर सचिव

दिनांक 11 मार्च 2011

सं. ए. 22017/1/2009-पीएमए(स्था.) वॉल्यू-II--राष्ट्रपति, पत्र सूचना ब्यूरो के आईआईएस ग्रुप 'ए' के वरिष्ठ ग्रेड की अधिकारी श्रीमती हिमानी सारद (आईआरएलए नं. 15204) को दिनांक 07 मार्च, 2011 (पूर्वाह्न) से रु. 6,600/- के ग्रेड-पे के साथ पे-बैंड-3 (15,600--39,100/-) में प्रधान मंत्री की अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. श्रीमती हिमानी सारद की प्रधान मंत्री के वैयक्तिक स्टॉफ में नियुक्ति प्रधान मंत्री के कार्यकाल तक और उनके विवेकाधीन होगी।

पी. के. बाली, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 2011

सं. आर.एस./3/7/1/2011/17-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत सहायक निदेशक (संपादन और अनुवाद), श्रीमती पूनम साहनी को 01 फरवरी, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ उप निदेशक (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में स्व-स्थाने आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आर.एस./3/4/1/2011/18-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने श्री कोमल भटनागर, वर्तमान में तदर्थ आधार पर उप निदेशक (पी.एस.एस.) के रूप में कार्यरत, को 23 फरवरी, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आर.एस./3/4/1/2011/19-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत वरिष्ठ निजी सचिव, श्रीमती उर्मिल सैनी को 23 फरवरी, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में तदर्थ आधार पर उप निदेशक (पी.एस.एस.) के ग्रेड में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन ग्राह्य सामान्य भत्तों के साथ स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. उपरोक्त व्यक्ति द्वारा तदर्थ आधार पर उप निदेशक (पी.एस.एस.) के ग्रेड में प्रदान की गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता तथा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अर्हता के प्रयोजनार्थ नहीं गिना जाएगा।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आर.एस./3/4/1/2011/20-कार्मिक--श्रीमती गीता भन्डूला, जिन्हें पहले दिनांक 30 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. आर.एस. 3/4/1/2009/110-कार्मिक द्वारा स्व-स्थाने आधार पर राज्य सभा सचिवालय में निजी सचिव के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को 23 फरवरी, 2011 के पूर्वाह्न से उक्त ग्रेड में नियमित रिक्तियों के लिए समायोजित किया जाता है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर, दिनांक 27 जनवरी 2011

सं. 20012/5/2006/अनु. V--श्री एस. के. शिवकुमार, सह निदेशक, इसरो उपग्रह केन्द्र (आईजेक), इसरो डाक विमानपुरा (पुराना), एच. ए.एल., एयरपोर्ट रोड, बैंगलूर-560017 (फोन : 080 2508 2195/2508 2196/2520 5229 तथा फैक्स : 080 2508 2198) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अन्तरिक्ष विभाग में ट्रांसपरेन्सी अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

बी. एस. अनन्तरामु, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2011

सं. ए. 12025/9/2009-प्रशासन-I--योजना आयोग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त, 2010 के अनुक्रम में राष्ट्रपति, डॉ. डी. भारद्वाज, संयुक्त सलाहकार (श्रम एवं रोजगार) की तदर्थ नियुक्ति को अगले छह महीने के लिए दिनांक 03.02.2011 से आगे, योजना आयोग में पे बैंड 4 रुपए 37,400--67,000/- + 8,700/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में, तदर्थ नियुक्ति नियमित प्रबंधन तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो बढ़ाते हैं।

2. आगे, डॉ. भारद्वाज को संयुक्त सलाहकार (आई.ई.एम.) के पद पर तदर्थ नियुक्ति के आधार पर 16.02.2011 से नियुक्त किया जाता है।

3. बाकी सभी शर्तें वही होंगी जो कि योजना आयोग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त, 2010 में निहित हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

सं. ए. 12025/9/2009-प्रशासन-I--योजना आयोग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 जुलाई, 2010 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री के. एन. पाठक, वर्तमान में तदर्थ संयुक्त सलाहकार (बहुस्तरीय योजना) को संयुक्त सलाहकार (एलईएम) के पद पर तदर्थ नियुक्ति के आधार पर दिनांक 16.02.2011 से नियुक्त किया जाता है।

2. बाकी सभी शर्तें वही होंगी जो कि योजना आयोग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 जुलाई, 2010 में निहित हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

सं. ए. 12025/9/2009-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, योजना आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को योजना आयोग में पे बैंड 4 रुपए 37,400/-67,000/- + 8,700/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में संयुक्त सलाहकार के पद पर तदर्थ नियुक्ति दिनांक 16.02.2011 से एक वर्ष तक अथवा पद के नियमित रूप से भरे जाने तक अगले आदेशों तक के लिए अथवा इनमें से जो भी पहले हो, करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पद का नाम
1.	डॉ. (श्रीमती) इंदु पटनायक, नियमित उपसलाहकार (एमएलपी)	संयुक्त सलाहकार (एमएलपी)
2.	श्री डी. बनर्जी, नियमित उपसलाहकार (उपभोक्ता उद्योग)	संयुक्त सलाहकार (आईआईपी)

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह तदर्थ नियुक्ति उपर्युक्त अधिकारियों को संयुक्त सलाहकार के पद पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता और न ही संयुक्त सलाहकार के पद पर उनकी इस तदर्थ नियुक्ति की अवधि को संयुक्त सलाहकार ग्रेड में वरीयता के लिए अथवा उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जाएगा।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 3 मार्च 2011

सं. एफ. 6(2072)/2008-प्रशासन-I--शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत सीपीएचईआईओ में संयुक्त सलाहकार (पीएचईआई) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयन होने के कारण डॉ. दिनेश चंद, नियमित उपसलाहकार (पीएचई), पेय जल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि वर्तमान में योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (जल स्रोत) के पद पर दिनांक 31.10.2008 से प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत हैं, को योजना आयोग से दिनांक 03.03.2011 के पूर्वाह्न से पदमुक्त करते हैं ताकि शहरी विकास मंत्रालय में पद ग्रहण कर सकें।

जी. राजीव, अवर सचिव

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 मार्च 2011

सं. ए-19011/33/2011-यूआईडीएआई--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.10.2010 के. का. ज्ञापन सं. 7/11/2009-ईओ (एमएम-1) और रक्षा मंत्रालय (राइफल फैक्ट्री ईशापोर) के दिनांक 28.01.2011 के पत्र सं. 227 द्वारा सूचित किए गए अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसरण में श्री आर. के. सिन्हा, आईओएफएस (1990) ने रांची स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय में 37,400/- 67,000/- रुपये के वेतन बैंड 8,700/- रुपये के वेतन ग्रेड में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पाँच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, दिनांक 02.03.2011 की पूर्वाह्न से सहायक महानिदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरूण कुमार सरकार, उप निदेशक

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 17 फरवरी 2011

सं. के-13021/4/2010-यू.एस. II--राष्ट्रपति, संविधान (जम्मू एवं कश्मीर के सम्बन्ध में लागू) आदेश, 1954 के अनुच्छेद 222 (1क) के साथ पठित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श के पश्चात्, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलिफुल्ला को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 3 मार्च, 2011 को या उससे पहले जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

सतीश सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

सं. के-13025/5/2010-यू.एस. II--न्यायविद् श्री राम किशोर गुप्ता ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के परन्तुक (क) के अनुसरण में दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 अपराह्न से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से त्याग-पत्र दे दिया है।

सतीश सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 14 मार्च 2011

सं. के-13014/04/2010-यू.एस. I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) श्री तानाजी विश्वास नलवडे (2) श्री मदतअली नूर मोहम्मद गीलानी (3) श्री मदन त्रयंबक जोशी (4) श्री मदनलाल लक्ष्मणदास टहलियानी (5) श्री अभय महादेव ठिपसे और (6) श्री उत्कर्ष विश्वनाथ बाब्रे को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए, सिवाय श्री मदतअली नूर मोहम्मद गीलानी के, जिनका कार्यकाल दिनांक 25 जनवरी, 2013 अर्थात् उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक होगा, बम्बई उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 25 फरवरी 2011

सं. के-11019/3/2011-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री पाल डेनियल दिनकरन प्रेम कुमार के अवकाश पर चले जाने के कारण, उनकी अनुपस्थिति के दौरान, सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री सोनाम फिन्चो वाड्डी को दिनांक 28.02.2011 से 11.03.2011 (दोनों दिन शामिल हैं) तक, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 23 फरवरी 2011

सं. 14046/84/1998-यूटीएस-I--राष्ट्रपति, अरूणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग की 1979 बैच की आईएएस अधिकारी श्रीमती सुमति मेहता को अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(2) के अनुसार 23 फरवरी, 2011 के अपराहन से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करती हैं।

बलदेव राज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2011

सं. आई-11014/12/2009-आईपीएस-IV--राष्ट्रपति, केन्द्र सरकार, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मणिपुर, त्रिपुरा तथा राजस्थान की सरकारों की सहमति से श्री दीपक कुमार, आईपीएस (मणिपुर-त्रिपुरा : 2004) का विवाह सुश्री लवली कटियार, आईपीएस (राजस्थान : 2008) के साथ हो जाने के आधार पर श्री दीपक कुमार, आईपीएस (मणिपुर-त्रिपुरा : 2004) का स्थानांतरण मणिपुर-त्रिपुरा से राजस्थान के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में करती हैं।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 2011

सं. ए-32014/5/2010-प्रशा. 1 (क)--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों, जो कि गृह मंत्रालय में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/12/2010-सीएस. II(ए), दिनांक 14.2.2011 के तहत उनके नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के चयन सूची के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में शामिल किए जाने के अनुसरण में दिनांक 14.2.2011 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं. के नाम (वर्तमान में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्यरत)	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्देशित कार्यालय ज्ञापन में वरीयता सं.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव में चयन सूची का वर्ष
1. श्रीमती मधु शर्मा	17	2010 (खंड)
2. श्री अशोक कुमार	26	2010 (खंड)
3. श्री वेद प्रकाश	27	2010 (खंड)
4. श्री उपेन्द्र पाल सिंह	28	2010 (खंड)

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 2011

सं. आई-14011/7/2010-आईपीएस-1 (I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 28.02.2011 को चयन समिति की दिनांक 30.12.2010 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2009 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के झारखंड संवर्ग में वर्ष 2010 में दो मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु झारखंड पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

चयन सूची-2009

क्र. सं.	अधिकारियों का नाम	जन्म तिथि
1.	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह	01.08.1957
2.	श्री रंजीत कुमार प्रसाद	30.12.1959

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/7/2010-आईपीएस-1 (II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत झारखंड संवर्ग प्रदान करते हैं :--

चयन सूची-2009

क्र. सं.	अधिकारियों का नाम	जन्म तिथि
1.	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह	01.08.1957
2.	श्री रंजीत कुमार प्रसाद	30.12.1959

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 2011

सं. 13017/36/2010-अ.भा.से. (I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केरल तथा गुजरात सरकार की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री संजय एम. कौल, भा.प्र.से. (केरल : 01) की केरल संवर्ग से गुजरात संवर्ग में अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन

वर्ष की अवधि हेतु अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अनुमोदन प्रदान करती हैं।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2011

सं. 14015/18/2010-अ.भा.से. I-क--माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा की ओ. ए. सं. 19589/2010 (श्री एच. एस. पाबला द्वारा दायर) में दिनांक 29.11.2010 के आदेश का अनुपालन में और भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, पुनरीक्षण चयन सूची वर्ष 2008 (2007 की रिक्तियों के लिए तैयार की गई) और वर्ष 2008 तथा 2009 की रिक्तियों के लिए तैयार की गई वर्ष-वार चयन सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन पंजाब के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 20 दिसम्बर, 2010 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अधीन 4 फरवरी, 2011 को अनुमोदित की गई पंजाब के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करते हैं :--

चयन सूची-2008 (2007 की रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री		
1.	गोपाल कृष्ण सिंह	17.06.1957
2.	करमजीत सिंह म्हा	02.09.1954
3.	इंद्रजीत सिंह सन्धू	24.07.1954
4.	हरमेश सिंह पाबला	04.12.1953
5.	हरकेश सिंह	15.01.1954

चयन सूची-2008-क (2008 की रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री		
1.	रूपिन्दर सिंह रणधावा	08.07.1956
2.	पिरथी चन्द्र (अनुसूचित जाति)	06.06.1954
3.	मोहिन्दर सिंह (अनुसूचित जाति)	01.09.1954
4.	परमजीत सिंह (अनुसूचित जाति)	30.01.1955
5.	हरजीत सिंह (अनुसूचित जाति)	14.05.1959

चयन सूची-2009 (2009 की रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	श्री रविन्द्र कौशिक	14.08.1962
2.	श्री मोहिन्दर पाल अरोड़ा	07.06.1961

2. यह इस मामले में जारी की गई दिनांक 13 अगस्त 2009 की पूर्व अधिसूचना सं. 22012/18/2008-अ.भा.से. (I) का अधिक्रमण करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/18/2010-अ.भा.से. I-ख--माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा की ओ. ए. सं. 19589/2010 (श्री एच. एस. पाबला द्वारा दायर) में दिनांक 29.11.2010 के आदेश के अनुपालन में तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, पुनरीक्षण चयन सूची वर्ष 2008 और वर्ष-वार चयन सूची 2008-क और 2009 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर पंजाब राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेश तक परिवीक्षा पर, नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत उन्हें पंजाब कैडर में आवंटित करते हैं :--

चयन सूची-2008 (2007 की रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
सर्वश्री	
1.	गोपाल कृष्ण सिंह
2.	करमजीत सिंह म्हा
3.	इंद्रजीत सिंह सन्धू
4.	हरमेश सिंह पाबला
5.	हरकेश सिंह

चयन सूची-2008-क (2008 की रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
सर्वश्री	
1.	रूपिन्दर सिंह रणधावा
2.	पिरथी चन्द्र (अनुसूचित जाति)
3.	मोहिन्दर सिंह (अनुसूचित जाति)
4.	परमजीत सिंह (अनुसूचित जाति)
5.	हरजीत सिंह (अनुसूचित जाति)

चयन सूची-2009 (2009 की रिक्तियों के लिए)

क्र. सं. अधिकारी का नाम

सर्वश्री

1. रविन्द्र कुमार कौशिक
2. मोहिन्दर पाल अरोड़ा

2. यह इस मामले में जारी की गई दिनांक 13 अगस्त 2009 की पूर्व अधिसूचना सं. 22012/18/2008-अ.भा.से. (I) का अधिक्रमण करती हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 10 मार्च 2011

सं. 14015/23/2009.अ.भा.से.(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 2008 की रिक्तियों पर राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5 (1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत उत्तराखण्ड के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट रिक्तियों को भरने के लिए, 21 दिसम्बर, 2010 को विनियम 5 (5) के अंतर्गत तैयार की गई तथा 22 फरवरी, 2011 को विनियम 7 (2) के अंतर्गत अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों वाली उत्तराखण्ड राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करती हैं :--

चयन सूची-2008 (2008 की रिक्तियों पर)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म-तिथि
	सर्वश्री	
1.	सी. एम. एस. बिष्ट	04.09.1954
2.	प्रयाग सिंह जंगपंगी (अ.ज.जा.)	15.07.1955
3.	चन्द्र सिंह नपालछ्याल (अ.ज.जा.)	04.04.1957
4.	डॉ. मोहन चन्द्र जोशी	15.06.1956

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2011

सं. 14012/08/2010.अ.भा.से.(III)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा में, हरियाणा राज्य संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शायी गई तिथियों से स्थायी करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	बैच	स्थायी करने की तारीख
1.	श्री मनदीप सिंह बरार	2005	22.08.2007
2.	डॉ. साकेत कुमार	2005	22.08.2007

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

कार्यालय उप प्रमुख न्याचार (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2011

सं. डी III/460/सी एफ-51/2010--राष्ट्रपति, ने गोवा में पुर्तगाल के प्रधान कौंसल के रूप में श्री एन्तोनियो सबिदू कोस्ता की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री एन्तोनियो सबिदू कोस्ता के कौंसली क्षेत्राधिकार में गोवा और महाराष्ट्र राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश दमन, दीव, दादरा एवं नगर हवेली होंगे, जिसका केन्द्र गोवा होगा।

एस. इन्बशेखर, उप प्रमुख न्याचार (एफ)

दिनांक 8 मार्च 2011

सं. डी III/460/सी एफ-60/2010--भारत की राष्ट्रपति ने मुंबई में चीन जनवादी गणराज्य के प्रधान कौंसल के रूप में श्री नियू छिंगपाओ की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री नियू छिंगपाओ के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य होंगे, जिसका केन्द्र मुंबई होगा।

एस. इन्बशेखर, उप प्रमुख न्याचार (एफ)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2011

सं. ए-12011/10/2009-प्रशा. 2--इस विभाग की 06.08.2010 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति, वित्त संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएसएस) के निम्नलिखित ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में (9,300--34,800/- + 4,800/- रुपए ग्रेड वेतन बैंड-2 में) आशुलिपिक ग्रेड 'क' तथा 'ख' (सम्मिलित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के ग्रेड में पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्ति को 30.06.2011 तक या नियमित अधिकारी उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं :--

1. श्री योगेश कुमार
2. श्रीमती रीता रानी
3. श्रीमती नीलाक्षी
4. श्री राकेश कुमार सूद
5. श्रीमती लता रामचन्द्रन
6. श्री संजीव कुमार शर्मा

2. आशुलिपिक ग्रेड 'क' तथा 'ख' (सम्मिलित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के रूप में उपर्युक्त आशुलिपिक ग्रेड 'ग' की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

(क) इस नियुक्ति से इन अधिकारियों को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने तथा सीएसएसएस के ग्रेड 'क' तथा 'ख'

(सम्मिलित) (निजी सचिव) में नियमित नियुक्ति अथवा विरिष्ठता का दावा करने को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा;

(ख) इस तदर्थ नियुक्तियों को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

अशोक कुमार, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2011

सं. ए-19012/2/2006-डीआरटी--बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा स(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री सी. रामाचन्द्र मूर्ति, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, कोलकाता को, तत्काल प्रभाव से अपने प्रभार के अतिरिक्त, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापत्तनम का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

जे. एस. फौगाट, अवर सचिव

सं. ए-19012/2/2006-डीआरटी--बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा स(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री वी. सुब्रमण्यन, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, एर्नाकुलम को, तत्काल प्रभाव से अपने प्रभार के अतिरिक्त, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, चेन्नै का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

जे. एस. फौगाट, अवर सचिव

सं. ए-19012/2/2006-डीआरटी--बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री ए. विजय कुमार, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, मुंबई को, तत्काल प्रभाव से अपने प्रभार के अतिरिक्त, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

जे. एस. फौगाट, अवर सचिव

सं. ए-19012/2/2006-डीआरटी--बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा स(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II, कोलकाता को, तत्काल प्रभाव से अपने प्रभार के अतिरिक्त, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, कोलकाता का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

जे. एस. फौगाट, अवर सचिव

दिनांक 24 फरवरी 2011

सं. ए-19012/6/2007-डीआरटी--ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के पीठासीन अधिकारी श्री धुरजित चक्रवर्ती ठाकुर 24 फरवरी, 2011 (अपराह्न) से पीठासीन अधिकारी का कार्यभार छोड़ देंगे।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री ओ. पी. वर्मा, पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली को तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक अपने कार्यभार के अतिरिक्त, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के पीठासीन अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

जे. एस. फौगाट, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2011

सं. पीएफजी (2252)/एडी.-I--राष्ट्रपति इस विभाग की दिनांक 26 मार्च 2008 की अधिसूचना सं. ए-12026/5/2007-एडी-I के अनुक्रम में श्री सुचीन्द्र मिश्र (आईडीएस : 92) की वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 37,400--67,000/- रुपए के पे बैंड-4+8,700/- रुपए (ग्रेड पे) में निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 09 अप्रैल 2011 से तीन माह के लिए अर्थात् 09 जुलाई 2011 तक बढ़ाते हैं।

एस. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2011

सं. ए-32014/5/2008-संवर्ग--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक, ग्रेड 'ए' और 'बी' (विलयित), श्री के. वी. अनंथनारायण को दिनांक 25 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर पूर्ति प्रभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के पद पर पी. बी.-3 में (रु. 15,600--39,100+ग्रेड पे रु. 6,600/-) में दिनांक 30 जून 2011 तक की अवधि के लिए अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव श्री के. वी. अनंथनारायण को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

संजय शंकर, अवर सचिव

दिनांक 8 मार्च 2011

सं. ए-32013/2/2009-संवर्ग--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव (तदर्थ प्रधान निजी सचिव) श्री बी. एम. वल्लभन को वरीयता कोटे में चयन सूची वर्ष, 2009 के

लिए, दिनांक 25 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न) से पूर्ति प्रभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) में पी. बी.-3 में (रु. 15,600--39,100+ग्रेड पे रु. 6,600/-) में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव श्री बी. एम. वल्लभन को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

संजय शंकर, अवर सचिव

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
(आर्थिक सलाहकार का कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2011

सं. ए-38013/2/2010-आ.स. (प्रशा.-I)--वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में सांख्यिकी अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री स्वतन्त्रनाथ दुबे, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 28 फरवरी, 2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

एस. एस. दास, अपर आर्थिक सलाहकार (प्रशा.)

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2011

सं. आई-34011/10/2005-आरटीआई--इस विभाग की दिनांक 06 अक्टूबर 2005 की अधिसूचना सं. एफ-23024/16/2005-ई-III में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री प्रेमांशु विश्वास, निदेशक तथा श्री मृत्युंजय बेहरा, उप सचिव को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से संबंधित उन सभी मामलों के लिए जो उनके प्रभार में आते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

श्री एस. के. थाडे, निदेशक, जो एपीपीपीए में अपने नामांकन के परिणामस्वरूप इस विभाग में अपना प्रभार त्याग चुके हैं, का नाम इस विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों की सूची से हटा दिया गया है।

बाबू लाल, उप सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2011

सं. ए-12025/1/2011-स्था.--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 दिसम्बर 2010 के का.ज्ञा. सं. 5/25/2010-सीएस-II (ए) के तहत वर्ष 2008 की सीएसएसएस के स्टेनोग्राफर ग्रेड "ए एंड बी" (विलयित) की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के स्थायी स्टेनोग्राफर ग्रेड "सी" श्री पी. एस. राणा को कोयला मंत्रालय में

सीएसएसएस संवर्ग के स्टेनोग्राफर ग्रेड "ए एंड बी" (विलयित) के पद पर 24 फरवरी 2011 (पूर्वा.) से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री पी. एस. राणा को इस मंत्रालय के सीएसएसएस के स्टेनोग्राफर ग्रेड "ए एंड बी" (विलयित) की चयन सूची 2008 में शामिल किया जाता है।

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2011

मिसिल सं. ए-12011/4/2008-स्था.--राष्ट्रपति, मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के दिनांक 24 फरवरी 2011 के कार्यालय आदेश सं. 177/2011 के अनुसरण में श्री नरेश कुमार 1 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में लेखाकार के संवर्ग में शामिल किए गए पद पर 9,300--34,800/- रुपए के वेतन बैंड (पी बी-2) और 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन में सहायक लेखा अधिकारी पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. नाग, निदेशा (स्था.)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2011

सं. ए-12011/4/2008-स्था.--राष्ट्रपति, मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के दिनांक 25.02.2011 के कार्यालय आदेश संख्या 179/2011 के अनुसरण में श्री सुभाष चन्द्र, बजट अधिकारी को 17 फरवरी, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड (पीबी-3) और 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन (समूह 'क') में सहायक लेखा नियंत्रक के पद पर नियुक्त करते हैं।

टी. के. मुरगन, निदेशा (स्था.)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 2011

सं. ए-12025/19/2010-सीएचएस-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. रितु विनायक अरोड़ा को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में परिवीक्षा पर दिनांक 13 जनवरी, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक विशेषज्ञ ग्रेड-II (रेडियो-निदान) के पद पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2011

सं. ए-31013/2/2011-सीएचएस-V--राष्ट्रपति, डॉ. पुनिता कुमारी सोढ़ी, सहायक आचार्य, नेत्र विज्ञान को दिनांक 18.05.2008 से केन्द्रीय

स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप संवर्ग के सहायक आचार्य में स्थाई आधार पर नियुक्त करते हैं।

अमरजीत सिंह, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय
(पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 2011

सं. 5-4/2011-मात्स्यिकी प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी-14017/8/2010-स्थापना (आरआर) दिनांक 10 मार्च, 2010 और 24 जनवरी, 2011 के अनुसार राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएफ पीएचएटीटी), कोच्चि के निम्नलिखित पदों को तत्काल प्रभाव से नीचे दर्शाए गए अनुसार पुनः पदनामित किया जाता है :-

वर्तमान नामावली/वेतनमान	संशोधित नामावली/वेतनमान
आशुलिपिक-III (वेतन बैंड-I, 5,200--20,200/- रु. + ग्रेड वेतन 2,400/- रु.)	आशुलिपिक ग्रेड-II (वेतन बैंड-I, 5,200--20,200/- रु. + ग्रेड वेतन 2,400/- रु.)
आशुलिपिक-II (वेतन बैंड-2, 9,300--34,800/- रु. + ग्रेड वेतन 4,200/- रु.)	आशुलिपिक ग्रेड-I (वेतन बैंड-2, 9,300--34,800/- रु. + ग्रेड वेतन 4,200/- रु.)

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

दिनांक 15 मार्च 2011

सं. 3-18/2009-मात्स्यिकी (प्रशा.)--राष्ट्रपति, श्री ऋषिकेश बिसोयी को पे वेतन (पीबी-3) के 15,300--39,100/- रु. में 5,400/- रु. के ग्रेड पे के साथ (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह-क राजपत्रित, अनुसचिवीय, दिनांक 15.02.2011 (पूर्वाह्न से) केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन और इंजीनियरी संस्थान (सिफनेट), कोच्चि में वरिष्ठ अनुदेशक (समुद्र विज्ञान और समुद्री जलवायु विज्ञान) के पद पर नियुक्त करती हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2011

सं. 46-2/2009-प्रशा.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. (सुश्री) सोनिया शर्मा को 06.01.2011 के पूर्वाह्न से इस विभाग के अधीन पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा, हैदराबाद में 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 5,400/- रु. के वेतनमान (वेतन बैंड-3) में संगरोध अधिकारी (ग्रेड-क) पद पर नियुक्त करते हैं। वे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा प्रशासित नई पेंशन योजना द्वारा शासित होंगी।

2. डॉ. (सुश्री) सोनिया शर्मा पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवा, हैदराबाद में आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा साथ ही कार्यालयाध्यक्ष के तौर पर कार्य करेंगी।

आर. एस. जयाल, अवर सचिव

सं. 46-2/2009-प्रशा.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. (सुश्री) जिमली शर्मा को 13.12.2010 के पूर्वाह्न से इस विभाग के अधीन पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा, बंगलौर में 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 5,400/- रु. के वेतनमान (वेतन बैंड-3) में संगरोध अधिकारी (ग्रेड-क) पद पर नियुक्त करते हैं। वे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा प्रशासित नई पेंशन योजना द्वारा शासित होंगी।

2. डॉ. (सुश्री) जिमली शर्मा पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवा, बंगलौर में आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा साथ ही कार्यालयाध्यक्ष के तौर पर कार्य करेंगी।

आर. एस. जयाल, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2011

सं. पीएफ/टी/18-प्रशासन--राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की चयन श्रेणी (उप सचिव) में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप श्री थांगलेमलियन को दिनांक 08.04.2010 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2010-सी एस-I (डी) द्वारा चयन वर्ष 2009 के लिए, नियमित आधार पर 01 जुलाई, 2009 से उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजीव सबरवाल, अवर सचिव

सं. पीएफ/ए/31-प्रशासन--राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की चयन श्रेणी (उप सचिव) में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप श्री स्वपन कुमार गोस्वामी को दिनांक 09.12.2010 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2010 सीएस-I (घ) द्वारा चयन वर्ष 2010 के लिए नियमित आधार पर 01 जुलाई, 2010 से उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजीव सबरवाल, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2011

सं. ए-12034/02/2009-स्था.-II--राष्ट्रपति, श्री एन. जगन्नाथन, उप मुख्य लेखा अधिकारी, तमिलनाडु, जलापूर्ति एवं जल निकास बोर्ड (टीडब्ल्यूएडी) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री डी. नेपोलियन) के कार्यालय में सहायक निजी सचिव के रूप में पूर्णतः अस्थायी और मंत्री के कार्यकाल के साथ सह-सत्रावसान आधार पर या अगले आदेशों तक, जो पहले हो, ग्रेड पे 4,800/- रुपए के साथ पे-बैंड-2 (रुपए 9,300--34,800/-) में 28.02.2011 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2011

सं. ईआरबी-1/2010/2/76--राष्ट्रपति जी, श्री एस. चन्द्रशेखरन, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल लेखा सेवा की 31.01.2011 के अपराह्न से रु. 75,500--80,000/- के ग्रेड में पदोन्नति होने पर अपर सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 7 मार्च 2011

सं. ईआरबी-1/2011/2/10--रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव श्री पी. सी. मेनन को 01.03.2011 के पूर्वाह्न से रु. 37,400--67,000/- के पे बैंड-4 जमा ग्रेड पे रु. 8,700/- के वेतनमान में रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के प्रमुख स्टाफ अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 9 मार्च 2011

सं. ई(जी.पी.)2006/3/17--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के रेल सुरक्षा बल के निम्नलिखित निरीक्षक को 18.05.2009 से ग्रुप 'ए' के कनिष्ठ वेतनमान में सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

2006 के लिए पैनल

अधिकारी का नाम

श्री मॉरीस फर्नांडीज

वी. के. गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 मार्च 2011

सं. 2/2/2010-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, द्वारा श्री जीवन कुमार जेठानी, सहायक इंजीनियर-रेजिडेंट अधिकारी, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण

निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएन), नई दिल्ली को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5/1/94 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. (भाग-II), समय-समय पर यथासंशोधित, के प्रावधानों के अनुसार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली में 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड + 7,600/- रु. के ग्रेड पे में प्रतिनियुक्ति आधार पर वैज्ञानिक 'डी' के पद पर दिनांक 09.03.2011 (पूर्वाह्न) अर्थात् उनके द्वारा उक्त पद पर कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से नियुक्त किया जाता है।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 2011

सं. 7/16/2009-सीजीडब्ल्यूबी--राष्ट्रपति, डॉ. एस. सी. धोमान, सदस्य, सीजीडब्ल्यूबी को एचएजी वेतनमान 67,000--79,000/- रु. में पदोन्नति होने पर उन्हें 18.11.2010 (पूर्वाह्न) से अध्यक्ष, सीजीडब्ल्यूबी के पद पर नियुक्त करते हैं।

विनीत अब्राहम, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2011

सं. ए-11013/1/2011-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री खालिद बिन जमाल, आई ए एंड ए एस (1994) को शहरी विकास मंत्रालय में निदेशक स्तर पर 37,400--67,000/- रु. + ग्रेड वेतन 8,700/- रु. के वेतनमान/वेतन बैंड-4 में उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि यानी दिनांक 20.01.2011 (पूर्वाह्न) से 20.05.2014 यानी 7 वर्ष की संयुक्त केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि तक अथवा मंत्री जी के कार्यकाल तक अथवा मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में उनके द्वारा कार्य करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, "लेटरल शिफ्ट आधार" पर शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2011

सं. ए-32012/01/2009-आई.एस.एच.-II--राष्ट्रपति, डॉ. एम. राजाराम को 04.02.2011 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुम्बई में 14,300--18,300/- रु. के पूर्व-संशोधित वेतनमान में उपमहानिदेशक के पद पर नियुक्त करती हैं।

सुभाष चन्द, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 101, the 25th February 2011

No. A-22012/01/2011-PME—Consequent upon completion of tenure on Central Deputation, Smt. V. Vidyavathi, IAS (KN:91) has relinquished the charge of the post of Director in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 25th February, 2011.

P. K. BALI, Under Secy.

The 9th March 2011

No. A-22017/1/2011-PME—The President is pleased to appoint Shri P. R. Subramanian an Assistant of CSS Cadre of Ministry of Information & Broadcasting, as Assistant Private Secretary on the personal staff of Minister of State in Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 4th February, 2011.

2. The appointment of Shri P. R. Subramanian is co-terminus basis with the tenure of and at the discretion of the Minister of State in Prime Minister's Office.

P. K. BALI, Under Secy.

No. A-22017/1/2011-PME—The President is pleased to appoint Shri A. Anbarasu, IAS (AGMUT:1996) as Private Secretary to Minister of State in Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 4th February, 2011.

2. The appointment of Shri A. Anbarasu, Private Secretary to MoS is upto 02.08.2014 or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever is the earliest.

P. K. BALI, Under Secy.

No. A-22017/1/2011-PME—The President is pleased to appoint Shri A. Arun, Personal Assistant of CSSS Cadre of Planning Commission, as 1st Personal Assistant on the personal staff of Minister of State in Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 4th February, 2011.

2. The appointment of Shri A. Arun is co-terminus basis with the tenure of and at the discretion of the Minister of State in Prime Minister's Office.

P. K. BALI, Under Secy.

The 11th March 2011

No. A-22017/1/2009-PMA(Estt.) Vol-II—The President is pleased to appoint Smt. Himani Sarad (IRLA No. 15204) a

Senior Grade Officer of IIS Group 'A' of Press Information Bureau, as Additional Private Secretary to the Prime Minister in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 7th March, 2011.

2. The appointment of Smt. Himani Sarad on the personal staff of Prime Minister is co-terminus basis with the tenure of and at the discretion of the Prime Minister.

P. K. BALI, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 24th February 2011

No. RS/3/7/1/2011/17-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Punam Sahni, Assistant Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Deputy Director (E&T) on *in situ* basis in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100 with Grade Pay of Rs. 7,600/- plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 1st February, 2011 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

No. RS/3/4/1/2011/18-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Komal Bhatnagar, presently working on ad hoc basis as Deputy Director (PSS), on regular basis in that grade w.e.f. the forenoon of 23rd February, 2011 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

No. RS/3/4/1/2011/19-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Urmil Saini, Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Deputy Director (PSS) on ad hoc basis in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 23rd February, 2011 and until further orders.

2. The services rendered on ad hoc basis by the abovementioned person in the Grade of Deputy Director (PSS) will not be counted for the purpose of seniority in that grade and for eligible for promotion to the next higher grade.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

No. RS/3/4/1/2011/20-Perl.—Smt. Geeta Bhandula, who was earlier appointed to officiate in the grade of Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat on *in situ* basis vide Notification No. RS/3/4/1/2009/110-Perl. dated 30th December 2009, stand adjusted against regular vacancy

in the said grade with effect from the forenoon of 23rd February, 2011.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore, the 27th January 2011

No. 20012/5/2006-Sec.-IV—Shri S. K. Shivakumar, Associate Director, ISRO Satellite Centre (ISAC), ISRO PO, Vimanapura, (old) HAL Airport Road, Bangalore-560017. (Ph : 080 2508 2195/2508 2196/2520 5229 and Fax : 080 2508 2198) is hereby designated as Transparency Officer in the Department of Space under right to Information Act—2005.

B. S. Anantharamu, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 25th February 2011

No. A-12025/9/2009-Adm.I—In continuation of Planning Commission's notification of even number dated 11th August, 2010, the President is pleased to extend the term of ad hoc appointment of Dr. D. Bhardwaj as Joint Adviser (LEM) for a further period of six months beyond 03.02.2011 in PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- or till regular arrangement is made or until further orders, whichever is earlier.

2. Further, Dr. D. Bhardwaj is appointed as Joint Adviser (IEM) on ad hoc basis w.e.f. 16.02.2011.

3. The other terms and conditions will remain the same as was mentioned in earlier Planning Commission's notification of even number dated 11th August, 2010.

G. RAJEEV, Under Secy.

No. A-12025/9/2009-Adm.-I—In partial modification of Planning Commission's earlier notification of even number dated 30 July 2010, Shri K. N. Pathak, presently Joint Adviser (Multilevel Planning) on ad hoc basis is appointed as Joint Adviser (LEM) on ad hoc basis w.e.f. 16.02.2011.

2. The other terms and conditions will remain the same as was mentioned in earlier Planning Commission's Notifications of even number dated 30 July 2010.

G. RAJEEV, Under Secy.

No. A-12025/9/2009-Adm.I—The President is pleased to appoint the following Deputy Advisers of Planning Commission as Joint Advisers in the discipline mentioned against each in Pay Band 4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- on ad hoc basis for a period of one year

w.e.f. 16.02.2011 or till the post in question is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Officer	Name of Post
(i)	Dr. (Mrs.) Indu Patnaik, regular Deputy Adviser (MLP)	Joint Adviser (MLP)
(ii)	Shri D. Banerjee, regular Deputy Adviser (Consumer Industries)	Joint Adviser (IIP)

2. It is made clear that the above said ad hoc appointment will not bestow on the above officers any right to claim for regular appointment in the grade of Joint Adviser and also that any service rendered by them on ad hoc basis in the grade of Joint Adviser would neither count for the purpose of seniority in the grade of Joint Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 3rd March 2011

No. F-6(2072)/2008-Adm.I—Consequent upon his selection for appointment as Joint Adviser (PHEE) in CPHEEO under Ministry of Urban Development on deputation basis, Dr. Dinesh Chand, Regular Dy. Adviser (PHE), Department of Drinking Water Supply, MoRD, presently working as Joint Adviser (Water Resources) on deputation basis w.e.f. 31.10.2008, is relieved from Planning Commission w.e.f. the forenoon of 3rd March, 2011 to enable him to join Ministry of Urban Development.

G. RAJEEV, Under Secy.

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 3rd March 2011

No. A-19011/33/11-UIDAI—In pursuance of approval of the Competent Authority as conveyed by Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer) O.M. No. 7/11/2009-EO(MM-I) dated 27.10.2010 and Ministry of Defence (Rifle Factory Ishapore) Letter No. 227 dated 28.01.2011, Shri R.K. Sinha, IOFS (1990) has assumed the charge of Assistant Director General in Unique Identification Authority of India in Regional Office, Ranchi w.e.f. 02.03.2011 (F/N) on deputation in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade pay of Rs. 8,700/- for a period of five years or until further orders whichever is earlier.

ARUN KUMAR SARKAR, Dy. Director

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 17th February 2011

No. K. 13021/4/2010-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, read with article 222 (1A) of the Constitution (Application to Jammu & Kashmir) Order, 1954, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Shri Fakkir Mohamed Ibrahim Kalifulla, Judge of the Madras High Court, as a Judge of the Jammu & Kashmir High Court and to direct him to assume charge of his office in the Jammu & Kashmir High Court on or before 3rd March, 2011.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

No. K. 13025/5/2010-US.II—Justice Shri Ram Kishore Gupta resigned from the office of the Judge, Madhya Pradesh High Court, in pursuance of proviso (a) to clause (1) of article 217 of the Constitution of India, with effect from the afternoon of 1st December, 2010.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 14th March 2011

No. K. 13014/4/2010-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Tanaji Vishwas Nalawade, (2) Shri Madatali Noormohammed Gilani, (3) Shri Madan Trymbak Joshi, (4) Shri Madanlal Laxmandas Tahaliyani, (5) Shri Abhay Mahadeo Thipsay, and (6) Shri Utkarsh Vishvanath Bakre, as Additional Judges of the Bombay High Court, in that order of seniority, for a period of two years, with effect from the dates they assume charge of their offices, except Shri Madatali Noormohammed Gilani, whose tenure shall be upto January 25, 2013 i.e. the date of superannuation.

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

New Delhi-110011, the 25th February 2011

No. K. 11019/3/2011-US.II—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Sonam Phintso Wangdi, Judge of the Sikkim High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court from 28.02.2011 to 11.03.2011 (both days inclusive) during the absence of Shri Justice Paul Daniel Dinakaran Premkumar, Chief Justice, on leave.

S.K. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Delhi-1, the 23rd February 2011

No. 14046/84/1998-UTS-I—The President is pleased to permit Smt. Sumati Mehta, an IAS officer of 1979 Batch of Joint Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories Cadre, to retire from service voluntarily with effect from the afternoon of 23rd February, 2011 in accordance with Rule 16(2) of the All India Service (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

BALDEV RAJ, Under Secy.

The 28th February 2011

No. I-11014/12/2009-IPS.IV—In exercise of the powers conferred under Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Manipur, Tripura and Rajasthan, the Central Government hereby transfers Shri Deepak Kumar, IPS (Manipur-Tripura : 2004) from Manipur-Tripura to the IPS Cadre of Rajasthan on the ground of his marriage with Ms. Lovely Katiyar, IPS (Rajasthan : 2008).

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

New Delhi, the 8th March 2011

No. A-32014/5/2010-Ad.I(A)—The President is pleased to appoint the following Principal Private Secretaries of CSSS cadre, who are presently officiating as Senior Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the Ministry of Home Affairs, as Senior Principal Private Secretary on regular basis in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 14th February, 2011, consequent upon inclusion of their names in the Select List Year of Senior Principal Private Secretary in terms of the DoPT's OM No. 5/12/2010-CS.II(A) dated 14.02.2011.

Sl. No.	Name of regular PPSs (presently officiating as Sr. PPS on ad hoc basis)	Seniority No as per DoPT's above referred OM	Select List Year of Sr. PPS
1.	Smt. Madhu Sharma	17	2010 (Part)
2.	Shri Ashok Kumar	26	2010 (Part)
3.	Shri Ved Prakash	27	2010 (Part)
4.	Shri Upendra Pal Singh	28	2010 (Part)

J.B. SHARMA, Under Secy.

The 10th March 2011

No. I-14011/7/2010-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian

Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 28.02.2011, approved the Select List of the year 2009 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 30.12.2010, containing the names of the following Jharkhand Police Service Officers, towards filling up 2 substantive vacancies during the year 2010 in the IPS of Jharkhand Cadre:—

Select List 2009

Sl. No.	Name of the officer	Date of Birth
(Smt./Shri)		
1.	Jitendra Kumar Singh	01.08.1957
2.	Ranjit Kumar Prasad	30.12.1959

O.S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/7/2010-IPS. I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Jharkhand Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Jharkhand Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List 2009

S. No.	Name of the officer	Date of Birth
(Smt./Shri)		
1.	Jitendra Kumar Singh	01.08.1957
2.	Ranjit Kumar Prasad	30.12.1959

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

O. S. ASHOK, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES &
PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 20th January 2011

No. 13017/36/2010-AIS (I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Kerala and Gujarat the Central Govt. hereby accords approval for inter cadre deputation of Shri Sanjay M. Kaul, IAS (KL : 01) from Kerala cadre to Gujarat cadre for a period of three years from date of assumption of charge or until further orders, whichever is earlier.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

New Delhi, the 3rd March 2011

No. 14015/18/2010-AIS (I)-A—In compliance with the order dated 29.11.2010 of the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana in OA No. 19589/2010 (filed by Shri H. S. Pabla) and in exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Punjab containing the following names prepared on 20th December, 2010 under Regulation 5(5) and approved on 4th February, 2011, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Punjab under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Review Select List of 2008 (prepared against the vacancies of 2007) and year-wise Select Lists prepared against the vacancies of the year 2008 and 2009 :—

Select List 2008 (Against vacancies of 2007)

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
(S/Shri)		
1.	Gopal Krishan Singh	17.06.1957
2.	Karamjit Singh Sra	02.09.1954
3.	Inderjit Singh Sandhu	24.07.1954
4.	Harmesh Singh Pabla	04.12.1953
5.	Harkesh Singh	15.01.1954

Select List 2008-A (Against vacancies of 2008)

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
(S/Shri)		
1.	Rupinder Singh Randhawa	08.07.1956
2.	Pirithi Chand (SC)	06.06.1954
3.	Mohinder Singh (SC)	01.09.1954
4.	Paramjit Singh (SC)	30.01.1955
5.	Harjit Singh (SC)	14.05.1959

Select List 2009 (Against vacancies of 2009)

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
(S/Shri)		
1.	Ravinder Kumar Kaushik	14.08.1962
2.	Mohinder Pal Arora	07.06.1961

2. This supersedes the earlier notification No. 22012/18/2008-AIS (I) dated 13th August 2009 issued in the matter.

S. S. SUKHLA, Under Secy.

No. 14015/18/2010-AIS (I)-B—In compliance with the order dated 29.11.2010 of the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana in OA No. 19589/2010 (filed by Shri H. S. Pabla) and in exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service Punjab to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Review Select List of 2008 and year-wise Select Lists 2008-A and 2009 on probation until further orders and to allocate them to the Punjab Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List 2008 (Against vacancies of 2007)

S. No.	Name of the Officer
--------	---------------------

(S/Shri)

1. Gopal Krishan Singh
2. Karamjit Singh Sra
3. Inderjit Singh Sandhu
4. Harmesh Singh Pabla
5. Harkesh Singh

Select List 2008-A (Against vacancies of 2008)

S. No.	Name of the Officer
--------	---------------------

(S/Shri)

1. Rupinder Singh Randhawa
2. Pirthi Chand (SC)
3. Mohinder Singh (SC)
4. Paramjit Singh (SC)
5. Harjit Singh (SC)

Select List 2009 (Against vacancies of 2009)

S. No.	Name of the officer
--------	---------------------

(S/Shri)

1. Ravinder Kumar Kaushik
2. Mohinder Pal Arora

2. This supersedes the earlier notification no. 22012/18/2008-AIS (I) dated 13th August 2009 issued in the matter.

S. S. SUKHLA, Under Secy.

The 10th March 2011

No. 14015/23/2010-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Uttarakhand containing the following names prepared on 21st November, 2010 under Regulation 5(5) and approved on 22nd February, 2011, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Uttarakhand under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government against the vacancies of 2008 :—

Select List 2008 (Against vacancies of 2008)

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
--------	---------------------	---------------

(S/Shri)

- | | | |
|----|-------------------------------|------------|
| 1. | C. M. S. Bisht | 04.09.1954 |
| 2. | Prayag Singh Jangpangi (ST) | 15.07.1955 |
| 3. | Chandra Singh Napalchyal (ST) | 04.04.1957 |
| 4. | Dr. Mohan Chandra Joshi | 15.06.1956 |

S. S. SUKHLA, Under Secy.

New Delhi, the 9th March 2011

No. 14012/08/2010-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Haryana, in the Indian

Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of confirmation
1.	Sh. Mandip Singh Brar	2005	22.08.2007
2.	Dr. Saket Kumar	2005	22.08.2007

NAVNEET MISRA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 7th March 2011

No. DIII/460/CF-51/2010—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Antonio Sabido Costa as Consul General of Portugal in Goa with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Antonio Sabido Costa comprises the States of Goa and Maharashtra, and Union Territories of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli with the seat in Goa.

S. INBASEKAR, Dy. Chief of Protocol (F)

The 8th March 2011

No. DIII/460/CF-60/2010—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Niu Qingbao as Consul General of the People's Republic of China in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Niu Qingbao comprises the States of Maharashtra and Karnataka with the seat in Mumbai.

S. INBASEKAR, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 4th March 2011

No. A. 12011/10/2009-Admn. II.—In continuation of this Department's Notifications of even number dated the 06.08.2010, the President is pleased to extend the appointment of the following Stenographers Grade 'C' of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) of Finance Cadre, to the grade of Stenographer Grade 'A&B' (merged) (designated as Private Secretary) of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) in the Pay Band (PB-2 of Rs. 9,300—34,800 + Rs. 4,800/- Grade Pay) in the Ministry

of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad-hoc basis upto 30.06.2011 or till regular officers become available or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri Yogesh Kumar
2. Smt. Rita Rani
3. Smt. Neelaxi
4. Shri Rakesh Kumar Sood
5. Smt. Latha Ramachandran
6. Shri Sanjeev Kumar Sharma

2. The ad hoc appointments of the above Stenographers Grade 'C' as Stenographer Grade 'A&B' (merged) (designated as PS) will be subject to the following terms and conditions :—

- (a) The ad hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A&B' (merged) (P.S.) of CSSS;
- (b) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 14th February 2011

No. A-19012/2/2006-DRT—In exercise of powers conferred by Sub-section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Shri C. Ramachandra Murty, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-III, Kolkata, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Visakhapatnam, in addition to his own charge with immediate effect.

J. S. PHAUGAT, Under Secy.

No. A-19012/2/2006-DRT—In exercise of powers conferred by Sub-section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Shri V. Subramanian, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Ernakulam, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Chennai, in addition to his own charge with immediate effect.

J. S. PHAUGAT, Under Secy.

No. A-19012/2/2006-DRT—In exercise of powers conferred by Sub-section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central

Government, hereby, authorizes Shri A. Vijay Kumar, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Mumbai, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Hyderabad, in addition to his own charge with immediate effect.

J. S. PHAUGAT, Under Secy.

No. A-19012/2/2006-DRT—In exercise of powers conferred by Sub-section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Shri Surendra Kumar Sharma, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-II, Kolkata, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Kolkata, in addition to his own charge with immediate effect.

J. S. PHAUGAT, Under Secy.

The 24th February 2011

No. A-19012/6/2007-DRT—Shri Dhurjati Chakrabarti Thakur, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-III, Delhi will demit the charge of Presiding Officer with effect from 24th February, 2011 (A.N.).

In exercise of powers conferred by Sub-section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Shri O. P. Verma, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Delhi, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-III, Delhi with immediate effect, in addition to his own charge until further orders.

J. S. PHAUGAT, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 11th March 2011

No. PFG(2252)/Ad. I—In continuation of this Department's Notification No. A. 12026/5/2007-Ad. I dated 26.03.2008, the President is pleased to extend the deputation tenure of Shri Suchindra Misra, (IDAS : 92) as Director in the Ministry of Finance, Department of Expenditure in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000 + Rs. 8,700/- (G.P.) for a period of 3 months beyond 09.04.2011 and upto 09.07.2011.

S. KRISHNAMOORTHIL, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 7th March 2011

No. A-32014/5/2008-Cadre—The President is pleased to appoint Sh. K. V. Ananthanarayan, Steno Grade 'A&B'

(Merged)' of CSSS of this cadre to the post of Principal Private Secretary of CSSS in PB-3 (Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay Rs. 6,600/- in Supply Division on ad-hoc basis for the period upto 30.06.2011 or till the posts are filled up on regular basis, or further orders, whichever is earlier w.e.f. 25.02.2011(F.N.).

2. Shri K. V. Ananthanarayan, PPS of CSSS, is posted in DGS&D.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

The 8 March 2011

No. A-32013/2/2009-Cadre—The President is pleased to appoint Shri B. M. Vallabhan, Private Secretary (ad-hoc PPS) of CSSS to the post of Private Secretary's Grade (Designated as PPS) of CSSS in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) in Supply Division for the Select List year 2009 against the Seniority Quota w.e.f. 25.02.2011(F.N.).

2. Shri B.M. Vallabhan, PPS of CSSS, is posted in DGS&D.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER

New Delhi, the 28th February 2011

No. A-38013/2/2010-Ec.Ad. (Admn.I)—On attaining the age of superannuation, Shri Swatantrata Nath Dubey, Statistical Officer in the Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce & Industry, shall stand retired from Government Service, with effect from the afternoon of 28th February, 2011.

SUDHANSU SEKHAR DAS, Addl. Economic Adviser (Admn.)

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION

New Delhi, the 11th March 2011

No. I-34011/10/2005-RTI—In partial modification of this Department's Notification No. F-23024/16/2005-E-III dated 06.10.2005, Shri Premanshu Biswas, Director and Shri Mrityunjay Behera, Deputy Secretary are designated as Central Public Information Officer in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 for all the matters under their charge in Department of Industrial Policy & Promotion.

Name of Shri S. K. Thade, Director, who has relinquished his charge in this Department consequent upon his nomination to APPPA, stands deleted from the list of CPIOs of this Department.

BABU LAL, Dir.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 4th March 2011

No. A-12025/1/2011-Estt.—Consequent upon inclusion in the Select List of Stenographers Grade 'A&B' (Merged) of CSSS for the year 2008 vide DOP&T's OM No. 5/25/2010-CS-II(A) dated 20.12.2010, the President is pleased to appoint Shri P. S. Rana, substantive Stenographer Gr. 'C' of the Ministry of Personnel, P.G. & Pensions, Department of Personnel & Training to the post of Stenographer Gr. 'A&B' (Merged) (PS) of CSSS cadre in the Ministry of Coal on regular basis w.e.f. 24.02.2011(F/N).

2. Shri P. S. Rana is included in the Select List 2008 of the Stenographers Gr. 'A&B' (Merged) of CSSS of this Ministry.

ANAND PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD &
PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 4th March 2011

No. A-12011/4/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Naresh Kumar as Assistant Accounts Officer against the encadred post of Accountant in the Department of Consumer Affairs in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) with a Grade Pay of Rs. 4,800/- (Group 'B' Gazetted) with effect from the forenoon of 01st March, 2011 until further Orders in pursuance of the office Order No. 177/2011 dated 24.02.2011 issued by the Office of the Chief Controller of Accounts, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution.

S. K. NAG, Dir. (Estt.)

New Delhi, 9th March 2011

No. A-12011/4/2008-Estt.—In pursuance of Office Order No. 179/2011 dated 25.02.2011 issued by the Office of the Chief Controller of Accounts, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, the President is pleased to appoint Shri Subhash Chander, Budget Officer as Assistant Controller of Accounts in the Department of Consumer Affairs in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100 (PB-3) with a Grade Pay of Rs. 5,400/- (Group 'A') with effect from the forenoon of 17th February, 2011 until further orders.

T. K. MURUGAN, Dir. (Estt.)

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 21st February 2011

No. A-12025/19/2010-CHS-IV.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ritu Vinayak Arora to the post of Specialist Grade-II (Radio-Diagnosis) in the Non-Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Services on probation

with effect from the forenoon of the 13th January, 2011, until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 4th March 2011

No. A-31013/2/2011-CHS-V—The President is pleased to appoint Dr. Punita Kumari Sodhi, Asstt. Professor of Ophthalmology, substantively in the Assistant Professor of Teaching Sub-cadre of the Central Health Service, with effect from 18.05.2008.

AMARJIT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING
AND FISHERIES)

New Delhi-110001, the 14th March 2011

No. 5-4/2011-Fy.Admn.—In terms of DoPT's O.M. No. AB-14017/8/2010-Estt. (RR) dated 10th March 2010 and 24th January 2011, the following posts of National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training (NIFPHATT), Kochi are hereby re-designated with immediate effect as indicated below :—

Existing Nomenclature/ Pay Scale	Revised Nomenclature/ Pay Scale
Stenographer-III (Pay Band-1, Rs. 5,200—20,200/- with Grade Pay of Rs. 2,400/-)	Stenographer Grade-II (Pay Band-1, Rs. 5,200—20,200/- with Grade Pay of Rs. 2,400/-)
Stenographer-II (Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,200/-)	Stenographer Grade-I (Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,200/-)

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

The 15th March 2011

No. 3-18/2009-Fy. (Admn.)—The President is pleased to appoint Shri Hrusikesh Bisoyi to the post of Senior Instructor (Oceanography & Marine Meteorology) in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (General Central Service Group-A Gazetted, Non-Ministerial) in Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training (CIFNET), Kochi w.e.f. 15.02.2011 (Forenoon).

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

New Delhi, the 14th March 2011

No. 46-2/2009Admn.-III—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Ms.) Sonia Sharma, to the post of Quarantine Officer (Grade-A) in Animal Quarantine & Certification Services, Hyderabad, in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + GP Rs. 5,400/- under this Department w.e.f.

06.01.2011 (F/N). She shall be governed by the new pension scheme administered by Ministry of Finance, Department of Expenditure.

2. Dr. (Ms.) Sonia Sharma, will act as Drawing & Disbursing Officer as well as Head of Office in respect of Animal Quarantine & Certification Services, Hyderabad.

R. S. JAYAL, Under Secy.

No. 46-2/2009Admn.-III—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Ms.) Jimlee Sarmah, to the post of Quarantine Officer (Grade-A) in Animal Quarantine & Certification Services, Bangalore, in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + GP Rs. 5,400/- under this Department w.e.f. 13.12.2010 (F/N). She shall be governed by the new pension scheme administered by Ministry of Finance, Department of Expenditure.

2. Dr. (Ms.) Jimlee Sarmah, will act as Drawing & Disbursing Officer as well as Head of Office in respect of Animal Quarantine & Certification Services, Bangalore.

R. S. JAYAL, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi-110001, the 4th March 2011

No. PF/T/18-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Thanglemlian as Deputy Secretary on regular basis w.e.f. 1st July, 2009, consequent upon the inclusion of his name in the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) for the Select Year 2009 vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/2/2010-CS.I(D) dated 08.04.2010.

RAJIVE SABHARWAL, Under Secy.

No. PF/S/150-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Swapan Kumar Goswami as Deputy Secretary on regular basis w.e.f. 1st July, 2010, consequent upon the inclusion of his name in the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) for the Select Year 2010 vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/2/2010-CS.I(D) dated 09.12.2010.

RAJIVE SABHARWAL, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi, the 3rd March 2011

No. A-12034/02/2009-Estt.-II—The President is pleased to appoint Shri N. Jaganathan, Deputy Chief Accounts Officer, Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board (TWAD) as Assistant Private Secretary in the Office of the Minister of State for Social Justice and Empowerment (Shri D. Napoleon)

in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 28.02.2011 (F.N.) on purely temporary and co-terminus basis with the tenure of the Minister or until further orders, whichever is earlier.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 3rd March 2011

No. ERB-I/2010/2/76—The President is pleased to appoint Shri S. Chandrasekharan, HAG/IRAS as Additional Member (Finance), Railway Board on promotion in Grade Rs. 75,500—80,000/- with effect from afternoon of 31.01.2011.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 7th March 2011

No. ERB-I/2011/2/10—Shri P. C. Menon, Senior Principal Private Secretary of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS) has been promoted as Principal Staff Officer of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS) in the Pay Scale of Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of 01.03.2011.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 9th March 2011

No. E(GP)2006/3/17—The President is pleased to appoint the undermentioned Inspector of Railway Protection Force of Indian Railways as Assistant Security Commissioner in Junior Scale of Group 'A' with effect from 18.05.2009.

PANEL FOR THE YEAR 2006

Name of the Officer

Shri Morris Fernandez

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 9th March 2011

No. 2/2/2010-Admn.-I—The President is pleased to appoint Shri Jeevan Kumar Jethani, Assistant Engineer - Resident Officer, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. (RRVPN), New Delhi on deputation basis as Scientist "D" in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/- in the Ministry of New and Renewable Energy, New Delhi w.e.f. 9th March, 2011 (FN) i.e. date of his assumption of the charge in said post, in accordance with

the provisions of DoPT OM No. 2/29/91-Estt. (Part-II) dated 5/1/94, as amended from time to time.

SURESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 14th March 2011

No. 7/16/2009-CGWB—The President is pleased to appoint Dr. S. C. Dhiman, Member, CGWB to the post of Chairman, Central Ground Water Board by promotion in the HAG Scale of Pay Rs. 67,000—79,000/- with effect from 18.11.2010 (FN).

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 28th February 2011

No. A-11013/1/2011-Admn.-I—The President is pleased to appoint Shri Khalid Bin Jamal, IA&AS (1994) as Private Secretary (Director Level) to the Minister of Urban Development (Shri Kamal Nath) in the Pay Band/Scale of

PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/- in the Ministry of Urban Development 'on lateral shift' basis with effect from the date of assumption of charge of the post i.e. 20.01.2011 (F/N), for a period upto 20.05.2014 i.e. for the balance period of the combined central deputation tenure of 7 years or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever is the earliest.

JITENDER KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 11th March 2011

No. A-32012/01/2009-ISH-II—The President is pleased to appoint Dr. M. Rajaram to the post of Deputy Director General in the pre-revised Pay Scale of Rs. 14,300—18,300/- in the Directorate General of Factory Advice Service & Labour Institutes, Mumbai, with effect from 04.02.2011 (F/N) and until further orders.

SUBHASH CHAND, Under Secy.